REVIEW

Repaper: A paper-like tablet

This unique 'augmented interaction' product brings the digital and analogue together

MALA BHARGAVA

More than the usual number of tablets have been coming in for the past few months, but none have been like the recently launched Repaper, an interesting product made by the French company Iskn.

Repaper isn't your usual Android tablet and nor is it anything like the ubiquitous iPad. Rather, it's a specialised single-purpose device meant for creative people. In India, it's been made available by New Delhi-based Sevendegrees and Faber-Castell India, and can be found online, including on Flipkart.


Repaper is a graphics tablet meant to never let go of the paper and pencil feel of drawing. It consists of a rectangular digital slate, a stylus pen and a pencil with a special innovative ring around them. To this, you can add your own device such as a laptop or tablet or PC. The ring, placed around a Castell 9000 (2B) co-branded Iskn graphite pencil, is what turns it into a digital input device. You can use your own as well – as long as you take great care not to lose the little ring, without which the magic just won't take place.

You need to plug in and switch on the tablet using its power button. A blue light blinks showing it's ready to connect to your second screen, which could be a laptop or tablet. You need to get the Repaper app on that device.

On the tablet, you place a sheet of paper. Our review unit came with a set of high quality paper in the appropriate size. The paper is made to stay in place with a set of clips that are provided with the tablet.

Paper-like

In the app, as you connect, you get the option of importing drawings or drawing afresh. On the app screen, you will see a bunch of tools such as a pencil, pen, calligraphy pen etc. Choose one and go back to the Repaper tablet, picking up the stylus pen or pencil. Now you can go ahead and draw – or write – on a piece of paper clipped to the slate. As you do so, the drawing appears in the app on the second screen. You can even draw on



the Repaper without paper and watch the image appear on the second screen. A 3D model of the pencil shows on the second screen, echoing your movement.

On the second screen, you can take several actions such as changing the orientation from portrait to landscape and vice versa. You can select options within each tool such as setting the thickness of a pencil, The size on the second screen may not appear the same as you're seeing on the paper on the tablet, so you may need to adjust the size and type of pencil to use. You can change colours and do some shading and colouring. Again, you may

the second screen looking exactly like customisations

your drawing on paper but there are lots and you can even work with layers. The art work will save digitally and you can then share it

whoever you want to from your other

It's undoubtedly a bit tricky moving back and forth between the Repaper tablet and the second device and you could just use a regular Android tablet or iPad with the Apple Pencil, but you won't get the feel of actual paper. You don't actually have to connect it to another device if you don't want to and it will still save the art work. It also has its own battery so you can take it around and draw wherever you want

Repaper costs ₹22,000 and is in a category all by itself. Head to iskn.co for more details.



IMPRESSIONS

Asus has just the thing for creators

Vivobook Pro 14X/16X OLED brings power and performance to its new category of laptops

MALA BHARGAVA

Indian users are very familiar with Asus' Vivobook range of laptops with their great balance between solid value and price. The company has now extended the range with a new class of Vivobook machines meant for content creators.

Our review unit of the Vivobook Pro 16X OLED was a black laptop with a minimalistic and straightforward metal body on top of a totally solid build. What's special is on the inside. Asus considers this class of laptop premium sitting a few

notches above the regular Vivobooks. Hence, the Pro in the name.

Bright display

Power up to take a look at the large 4K OLED screen. It has a taller aspect ratio and 100 per cent coverage of the DCI-P3 colour

> Pantone calibrated and geared towards colour accuracy it can't do less being aimed at

gamut. It's

creatives. Resolution is 3840 x 2400 ppi. The display is nice and bright, and the

thinned out. It has an impressive 86 per cent screen-to-body ratio but is not a touchscreen display.

It has a roomy lower panel with a large touch pad and a well designed keyboard - with one big red key creating quite an attractive accent. Keys have just the right

travel and are natural to use. The Vivobook Pro has an interesting virtual DialPad for a new form of input which depends on the software being

This notebook is very configurable with a choice between either Intel and AMD processors, along with NVIDIA's GeForce RTX series graphics cards.

There's also 16GB DDR4 RAM on-board with 1TB of M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD. As far as ports go, it has USB 3.2 Gen2 Type-C (Thunderbolt 4 on Intel variants), 1xUSB3.2Gen1Type-A, 2xU 1xHDMI1.4, a 3.5mm jack and a microSD card reader. It's stereo speakers are Harman Kardon.

This laptop weighs 1.95 kgs and costs

Infinix Note 11S: A tall gaming-friendly phone

MALA BHARGAVA

Hong Kong-based Infinix has long been known for its budget phones in India. For the past two years or so, it has started to offer more value for smartphones that are still affordably priced. A recent launch, the Infinix Note 11S, is an apt example.

The Note 11S, not to be confused with the Note 11 or the Hot 11S, comes in an ordinary looking bit of packaging. But the package has everything you need – a 33W charger and cable, a good quality back case, SIM pin, and a screen protector mounted on to the device. There's also a scratch card or two.

You'll immediately see what a very tall phone this is. Diagonally, it's 6.95 inches across. That's more or less tablet-sized, or would have been if the phone had been wide as well. It's a large phone and inevitably somewhat heavy, probably not for delicate hands. At the same time, it's surprisingly thin and well balanced. The form factor is meant to be right for its use in a landscape orientation, configured to suit those who want to be gaming or watching movies. The back is in a textured plastic, possibly designed to minimise slipperiness. It certainly minimises fingerprint smudges, which is

Our review unit is in a muted blue that looks quite nice.

All the buttons are on one side. The power button doubles up as a fingerprint sensor and works quite well. On the other side, you have the SIM tray with a dedicated memory card slot. On the top. you may notice there are no noise cancelling microphones. On the bottom edge, other than the charging slot and speaker, you find a 3.5mm stereo jack. At its budget price, the phone's

FullHD screen is not AMOLED but a decent enough IPS LCD. It doesn't match in brightness to an AMOLED but is not bad and has a ~84.5 per cent screen-to-body ratio with a small punch hole for the front camera that barely disturbs

all the viewing real estate. The screen has a 120Hz refresh rate which feels responsive and smooth.

The Note 11S is partly known as a gamer's phone because of the gaming focused 12nm MediaTek Helio G96 processor. There are two storage and RAM variants: 6GB with 64GB and 8GB with 128GB. I checked out the former. The type of storage, UFS 2.2, has faster read-write speeds which adds to the performance.

With Android 11, this phone works on XOS, Infinix' own interface, now in version 10.0. I find the skin has several annoyances such as how you can't increase the display size and a distinct Apple arrangement for widgets, but it's a far cry from the earlier interfaces one used to have to deal with.

There are quite a few preloaded apps you can't get rid of such as Hi Browser, XArena and Aha Games, a pity considering there's hardly limitless storage on the phone. From the back of the phone, it would seem the device has some

major camera

chops. It has three

rear cameras: a 50MP

primary, a 2MP depth and a 2MP macro. No ultra-wide. Decent enough for daylight photos outdoors with more than acceptable colour performance, but specially grainy indoors with poor or compromised light. The front camera is a

aren't bad. And there's not much more one can expect, given the great pricing for these devices: ₹12,999 for the 6GB variant and ₹14,999 for the 8GB one.

16MP and skin tones with its images

NEWS

India among top three priority | 5 milk producer companies markets for Amway: Global CEO

Company ramps up investments in **R&D** with four labs in India

MEENAKSHI VERMA AMBWANI

Direct-selling company Amway is stepping up focus on India and has identified it as its priority market for growth and investments besides China and the USA. The company believes that over the next few years, the India business has the potential to grow by nearly

10x growth expected

Milind Pant, Global CEO, Amway, told BusinessLine, "India for us is now among the top three priority markets in terms of driving Amway's next phase of growth and investments. When we look at our plans between now and 2030, we believe that India, China and the US will provide us with the highest growth rates. And so we will prioritise our investments in these three markets be it in terms of R&D or strengthening our digital capabilities.'

Pant took charge of the overall leadership of the company in 2019 as the first non-family

Ford Credit India (FCIPL).

"The acquisition gives Kotak

Prime access to over 16,000

high-quality customers with a

total loan outstanding of ₹425



Milind Pant, Global CEO, Amway

global CEO for Amway and is among the rising number of Indian-origin or Indian CEOs who are heading global operations for various companies.

"We believe the long-term potential of the India business. currently at about ₹2,000 crore, will scale up by nearly ten times and grow to about ₹20,000 crore. Will that happen in ten years or fifteen years or earlier...we will have to see,"

This year the company has ramped up investments in the R&D space in India with four R&D labs in Gurgaon, Chennai, Bengaluru and Madurai. Earlier this year, the company had said it would invest about ₹170 crore in the next 2-3 years to boost R&D, manufacturing automation, innovation & science and digital capabilities in India. Responding to a query

on the Omicron threat, Pant said that while challenges will continue, Amway is far more resilient with learnings of the past two years since the pandemic outbreak.

"We have benefited from two mega-trends across the globe. The rise of the gig economy and micro-entrepreneurship, especially with women and young millennials looking for supplemental incomes. Secondly, with consumers' growing focus towards health and nutrition, micro-entrepreneurs have adapted to provide wellness solutions to their communities and we will continue to invest in products and digital solutions to help them grow," he

Amway is eyeing global contribution of 65 per cent from the nutrition category to drive business growth by 2024, it said in a statement on Wednesday.

Limited Covid impact

Pant also said that despite challenges due to the pandemic, the company's India business

grew in 2020 and 2021. Nearly 70 per cent of Amway India's sales now come through the online platform from just about 30 per cent

to deploy cloud solutions

Airtel Business, IBM's joint venture to benefit 5 lakh dairy farmers

OUR BUREAU

Mumbai, December 22

Airtel Business and IBM have partnered to deploy a hybrid cloud solution for a group of five milk producer companies (MPCs) created by NDDB Dairy Services. This is estimated to benefit over 500,000 dairy farmers as these MPCs will move their SAP ERP workloads on a hybrid cloud platform.

The hybrid cloud solution that leverages Airtel Cloud and IBM Power servers will host the ERP (enterprise resource planning) and other key applications to accelerate the digital transformation of these MPCs — Paayas in Rajasthan, Maahi in Gujarat, Shreeja in Andhra Pradesh, Baani in Punjab, and Saahaj in Uttar Pradesh.

It will enable these producer companies to securely record and access key informaof members, the quantum of milk procured from the farmers, milk products made and sold etc. Companies will also be able to make direct and timely digital payments to over 500,000 affiliated milk farmers. These

farmers, who are mostly women, are contributing up to 25 lakh litres of milk each day from more than 14,000 vil-

Joint value proposition Ganesh Lakshminarayanan,

CEO - Enterprise Business, Airtel Business, said, "Our endeavour is to enable enterprises to stay focused on their core businesses as we drive end-to-end digital transformation on their behalf. Clients are looking for solutions that are scalable and secured. Through the joint value proposition, we have offered producer companies a modern and secured data centre infrastructure to run their data-intensive workload on a hybrid cloud platform in a very cost-effective manner."

Ravi Jain, Director - Server Sales, IBM - India and South Asia, added, "We are witnessing a considerable surge in demand for highly secured and cutting-edge digital technology from enterprise and government organisations. IBM and Airtel will collaborate and complement each other's capabilities to address the growing needs of digital transformation of enterprises in India. We are glad to support producer companies in their journey

NOTICE REGARDING Lo:

of UltratechCement Ltd Reg Office B Wing. Ahura Centre, 2ndFloor, Ma-hakali Caves Road, Andheri East, Mumbai,Maharashtra. 400093. I K G Numbar, Warrarashira. 400093. Tr Kg Leela W/O Late. K MGurupadappa Re-siding at No. 119, Doddapet Tiptur Rural, Kotanayakanahalli Tumkur Kamataka 572201The registered holder K M Gurupadappa of the under mention shares held in the above said company herebygive notice that the shares certificates in re-spect of theshares have been untraceable and we have applied to thecompany for issue of duplicate certificates. Any personhaving claim in respect of the said share should lodgesuch claims with the Company at its above referredaddress within 15 days from this date, else the Companywill proceed to issue duplicate shares certificates and nofurther claim will be entertained by the Companythers. entertained by the Companythere-after. 1. Folio Number K36350 Certificates no157475 Dist no from 37471368 to 37471555 Qty 188Sd K G

ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED CIN: L23423HR1933PLC000097

ed Office: Radaur Road, Yamunanagar — 135001, Haryana Ph.: 01732-661061 / 661158

Email Id: roynr@isgec.com, Website: www.isgec.com NOTICE TO SHAREHOLDER

Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and amendment therec

hereinafter referred to as "IEPF Rules". In terms of Rule 6 of IEPF Rules, all shareholders in respect of which dividend warran has not been encashed in the last 7 consecutive years are required to be credited to DEMAT Account of the IEPF Authority.

- The concerned shareholder who has not encashed the dividend warrant in the las
- 7 consecutive years has been informed about this by individual notice. i) This notice is in compliance with Rule 6(3)(a) of the IEPF Rules.
- Hence all the shares in respect of which dividends are not claimed/paid for the las 7 consecutive years have to be transferred to the IEPF DEMAT A/c as per the said
- The statement containing the details of name, address, folio number, demat account no, and number of shares due for transfer is made available in or website www.isgec.com for information and necessary action by the shareholder Shareholder who has not claimed his dividends in the last 7 consecutive year write to Registrar and share Transfer Agents M/s. Alankit Assignments Ltd., Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or at Registered office of
- the Company on or before March 20, 2022 for further details and for making a valid claim. In case no valid claim is made, the relevant shares will be transferred to the IEPF DEMATA/c by March 31, 2022 as may be identified by the IEPF Authority. Any person, whose shares and unclaimed dividends are transferred to the Fund, has to claim the shares and unclaimed dividends from the fund, in accordance with such procedure and on submission of such documents as may be prescribed.

For ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED

(S. K. Khorana) **Executive Director and Company Secretary**



Lela Place -Tiptur

BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER (M-10) ENGINEERS BHAWAN, 2ND FLOOR, ANDREWS GANJ, NEAR MOOL CHAND CROSSING, NEW DELHI-110049 Mail:- acem10.djb@gmail.com



Executive Eng. (C)Dr XII

STOP CORONA: "Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene Short Notice Tender No.7/ACE (M-10)/AEE (T) M-10/2021-22 Press Tender download & RTGS through ender in e procurei

Replacement of main sewer line from Red Light X-ing, Nehru Place to MTNL office at Outer Ring Road, Nehru Place under EE(S) II (AC-51 Kalkaji) Further details in this regard can be seen at govtprocurement.delhi.gov.in.

ISSUED BY P.R.O. (WATER) ASSTT. EXECUTIVE ENGINEER (T) M-10

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (C) DR-XII MU BLOCK, PITAMPURA, DELHI-110034 Email:executiveengineercdr12@gmail.com Stop Corona 1 Wash Your Hands 2 Wear Mask 3 Maintain Social Distance NIT No.01/EE(C) Dr XII/2021-22 of Tender in e download and RTGS hrough e procureme Providing/ Laving 150 mm dia SW pipe for making 10.01.2022 Rs.1500/-House Sewer Connection from existing manhole to the edge of building line of consumer end in areas falling under Budh Vihar GOC. Tender ID: 2021_DJB_213307_ NIT No.02/EE(C) Dr XII/2021-22 Name of work Date of release Last date and time of Procurement hrough e Procureme Providing / Laying 900 mm dia risi Avantika SPS to Rithala STP. 3,63,57,740/-Tender ID: 2021 DJB 213312

Issued BY P.R.O. (WATER)

e-TENDER NOTICE **Supply of Potassium Chloride** e-tenders are invited in TWO BID system from experienced Suppliers for the supply of 120 MT of Potassium Chloride Due date & time of e-Tender No. Tender ID TTP/CD/RM/KCL/2021-222 2021_TTPL_461004_1 dated 15/12/2021 The tender shall be submitted only by online as e-tender through the porta www.etenders.kerala.gov.in For more details and tenders, please visit our website www.travancoretitanium.con Asst. General Manager (Commercia

TRAVANCORE TITANIUM PRODUCTS LIMITED

(A government of Kerala Undertaking) Kochuveli, Thiruvananthapuram - 695 021, e-mail: rmttpl@gmail.com, rm@ttpltd.in

Kotak Prime buys Ford's PV loan portfolio Ford Credit's loan portfolio furcrore," it said in a statement. FCIPL customers will transther reiterates our continued Kotak Mahindra Prime, a subsiition to Kotak Prime in a diary of Kotak Mahindra Bank, planned manner over the next few months, it added. on Wednesday announced that it has acquired the passenger FCIPL is the Indian captive vehicle finance portfolio of

financing arm of Ford Motor Company and has been operating in the country since 2015. Vyomesh Kapasi, Managing Director, Kotak Mahindra

Prime, said, "The acquisition of

commitment to grow our vehicle financing business and having a strong presence in this

This is the second such acquisition by Kotak Mahindra Prime in recent months after its September 2021 acquisition of the vehicle financing loan portfolio of Volkswagen Finance.

खबर संक्षेप

हाईकोर्ट ने डीपीर्ड की डिमोशन पर रोक लगार्ड

चंडीगढ। ३२ डीपीई (डेमोस्टेटर फिजिकल एजुकेशन) को डिमोशन कर वापिस जेबीटी टीचर के पद पर भेजने के आदेश पर अमल करने पर रोक लगा दी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग 32 डीपीई (डेमोस्टेटर फिजिकल एजकेशन) को डिमोशन कर वापिस जेबीटी टीचर के पद पर भेजने के आदेश पर अमल करने पर रोक लगा दी है।

दोबारा जांच के लिए

हाईकोर्ट पहुंचे आईपीएस चंडीगढ। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा पर भेदभावपूर्ण तरीका अपना कर पूर्व डीजीपी के पक्ष जांच देने का आरोप लगाया है। वाई पूरन कुमार ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोडा पर भेदभावपर्ण तरीका अपना कर पूर्व डीजीपी के पक्ष जांच देने का आरोप लगाया है। कुमार ने जांच नए सिरे से किसी वरिष्ठ आईपीएस या डीजीपी से करवाने का आग्रह किया गया है।

फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 'साथ' लॉन्च

चंडीगढ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के माध्यम से बुधवार को सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 'साथ' को हरियाणा में लांच किया। इस सर्विस के माध्यम से राज्य का कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर 079690700500 पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकता है।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 'सेवा इंटरनेशनल' द्वारा किए जा रहे सेवा-कार्य की प्रशंसा करते हए कहा कि सरकार ने भी कोविड-19 के दौरान मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श दिलवाया था।

दिनांक : 22 दिसम्बर 2021

दोनों निवासी मकान नं. 718, सेक्टर-10, अम्बाला-133001

गांव व डाकघर सरसा, पेहोवा, कुरुक्षेत्र-136128 के भी निवासी

अधिकारियों की मदद से लेने के लिये अधिकत किया गया है।

अचरंजा, रणजीत नगर, अम्बाला सिटी, अम्बाला 130001-हरियाणा

पर भी :- प्लॉट नं. 13, खसरा नं. 16//6 (2-9), खाता नं. 282/309, हदबस्त नं. 56, पट्टी

विषय : गिरवीकृत सम्पत्ति ''प्लॉट नं. 13, माप कुल प्लॉट क्षेत्रफल-122.22 वर्गगज और कुल कवर्ड

एरिया-995.00 वर्गफुट, खसरा नं. 16//6 (2-9), खाता नं. 282/309, हदबस्त नं. 56, पट्टी अचरंजा,

रणर्जात नगर, अम्बाला सिटी, अम्बाला 130001-हरियाणा'' का भौतिक कब्जा लेने हेतु तिथि की पूर्व

कानूनी कार्यवाही सं. 2316-18 में माननीय जिला मजिस्ट्रेट अम्बाला द्वारा पारित आदेश दिनांक

उपरोक्त के मद्देनजर, आपको एतद द्वारा सुचित किया जाता है और जिला मजिस्टेट. अम्बाला

हम "प्लॉट नं. 13. माप कल प्लॉट क्षेत्रफल-122.22 वर्गगज और कल कवर्ड एरिया-995.00 वर्गफर

खसरा नं. 16//6 (2-9), खाता नं. 282/309, हदबस्त नं. 56, पट्टी अचरंजा, रणजीत नगर, अम्बाला सिटी,

अम्बाला 130001-हरियाणा'' के सभी भाग व हिस्से वाली गिरवीकृत सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने के लिये

छोट राम बहतकनीकी रोहतक

Phone No. 01262-274667

अध्यनरत छात्र/छात्राओं व उनके अभिभावकों के सचनार्थ

इस संस्थान में अध्यनरत छात्र/छात्राओं व उनके अभिभावकों से अनुरोध

किया जाता है कि वे अपने सुपुत्र/सुपुत्री की उपस्थिति संस्थान में सुनिश्चित

करे अन्यथा उनकी उपस्थिति कम होने पर नियमानुसार उन्हें स्टेट बोर्ड की

परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया जाएगा और नियमित रूप से अनपस्थित रहने पर

उनका नाम संस्थान से काट दिया जाएगा। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अभिभावक-शिक्षक मीटिंग दिनांक 28/12/2021 व 21/01/2022 को

संस्थान में प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे तक होगी। जबकि प्रथम वर्ष में

अध्यनरत छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की अभिभावक-शिक्षक मीटिंग

17/01/2022, 07/02/2022 व 01/06/2022 को संस्थान में प्रातः

10.00 बजे से 3.00 बजे तक होगी। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि

निर्धारित दिन को संस्थान में आकर अपने बच्चों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक

स्थिति बारे में विवरण प्राप्त करें। अभिभाव के इसे अति महत्वपूर्ण समझें व

अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

<u>.....</u>

द्वितीय व तृतीय वर्ष में अध्यनरत छात्र/छात्राओं व उनके अभिभावकों की

प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड

10 जनवरी 2022 को अथवा पश्चात और/अथवा उसके पश्चात किसी भी दिन आएंगे।

18.10.2021 के तहत अधोहस्ताक्षरी को ऊपर वर्णित गिरवीकृत सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस

के निर्देशों का अनपालन करने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को गिरवीकत सम्पत्ति का शांतिपर्वक

भौतिक कब्जा सौंपने के लिये पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करने का आग्रह किया जाता है।

संदर्भ : ऋण अकाउंट /प्रोस्पेक्ट नं. 842632, कर्जदार का नाम : अमर सिंह एवं अन्य।

सेवा में,

1. अमर सिंह

सूचना 🗸 जानकारी।

पूर्वी और पश्चिमी हरियाणा को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा

विधानसभा सत्रः डबवाली से पानीपत तक मार्ग के लिए डीपीआर तैयार करने को मंजूरी

हरिभूमि ब्यूरो≯≯ चंडीगढ़

पूर्वी हरियाणा को पश्चिमी हरियाणा से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा, जिसकी डीपीआर तैयार करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने

प्रस्तावित एक्सप्रेस–वे को प्रदेश के सात नेशनल हाईवे भी टच करेंगे

 अन्य जिलों का हैवी टैफिक भी डायवर्ट होकर एक्सप्रेस–वे पर आ सकेगा

रुपये की स्वीकृति भी दी है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल में दी। उन्होंने ने बताया कि डबवाली से

डीपीआर तैयार करने

के लिए 80 लाख

पानीपत तक एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से प्रदेश के कई जिलों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे को प्रदेश के सात नेशनल हाईवे भी टच करेंगे, जिससे प्रदेश के अन्य जिलों का हैवी टैफिक भी डायवर्ट होकर इस एक्सप्रेस-वे का फायदा उठा सकेगा। विदित रहे कि डबवाली हरियाणा के अंतिम छोर पर है। डबवाली उपमंडल को दो राज्यों पंजाब तथा राजस्थान की सीमा लगती है। दो राज्यों की सीमा लगने के कारण यहां से हैवी व्हीकल का आवागमन ज्यादा रहता है लेकिन यहां से पानीपत, करनाल होते हुए यूपी जाने के लिए सीधा कोई राष्ट्रीय राजमार्गे नहीं है।

पंजाब-राजस्थान को भी फायदा

डबवाली-पानीपत एक्सप्रेस-वे बनने से हरियाणा के साथ-साथ पंजाब एवं राजस्थान को भी काफी फायदा होगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जींद-सफीदों मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इसपर जल्ढ काम शरू होगा।



चंडीगढ़। विस सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न का जवाब देते मुख्यमंत्री मनोहर लाल।

गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंग

उपमुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जनवरी 2022 से नए सिरे से राज्य में भी जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा जिसमें 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में महाग्राम योजना के तहत सीवरेज टीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, ८ से 10 हजार तक की आबादी वाले गांवों में दूसरी एफएसटीपी की सुविधा को अपग्रेड किया जाएगा, 5 से 8 हजार तक की आबादी वाले गांवों को भी पोंड अथोरिटी एक नई योजना के साथ टेकअप करेगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पोंड अथोरिटी को भी गांवों में तालाबों के पानी की सफाई के लिए आदेश दिए गए हैं, एचआरडीएफ से भी स्पेशल बजट डायवर्ट किया जा रहा है। तालाबों की सफाई व सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा।

असंघ के सीएनओ

कार्यमार मुक्त

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि असंध के नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयपाल चहल को तुरंत प्रभाव से कार्यभार मुक्त कर दिया है और उनका तबादला पानीपत के नागरिक अस्पताल में कर दिया गया है। विज ने यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक शमशेर सिंह गोगी द्वारा की गई मांग के तहत यह आदेश विधानसभा में किए थे कि डॉ चहल को बुधवार को ही भारमुक्त कर दिया जाएगा। सिविल सर्जन, करनाल द्वारा एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। पत्र के अनुसार डॉ. चहल का स्थानान्तरण नागरिक हॉस्पिटल असंध से जिला नागरिक अस्पताल पानीपत का हो गया है। अतः आज दोपहर बाद उन्हें भारमुक्त करते हुए आदेश दिये गए है।

अनुपूरक अनुमान ७३१२.६६ करोड़ रुपये की स्वीकृति

विधानसभा ने दूसरी अनुपूरक अनुमान 7312.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि २१ अलग-अलग मांगों में स्वीकृत की गई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुपूरक मांगों के लिए हरियाणा विनियोग विधेयक, २०२१ प्रस्तुत किया। इसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया।

शहरी विकास के लिए सदन ने १५०० करोड मंजर किए

शहरी स्थानीय निकायों और शहरी विकास का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 2740.36 करोड़ रुपये और शहरी विकास के तहत 1500 करोड रुपये का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी प्रकार महामारी के दृश्टिगत स्वास्थ्य ढांचे का उन्नयन के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए 537.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। सहकारी क्षेत्र में सहकारी बैंक के सुदृढीकरण के लिए 703.45 करोड़ रुपये और चीनी मिलों के लिए 340.16 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया।

खेलो इंडिया गेम्स-२०२१ पर खर्च होंगे ६७ करोड रुपये

इनके अलावा खेलो इंडिया गेम्स-२०२१ के आयोजन के लिए 67.50 करोड़ रुपये, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा 'मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना' के तहत लाभार्थियों को भुगतान करने हेतू, 26.00 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वहीं डिपो धारकों के कमीशन, परिवहन शल्क के भुगतान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरसों तेल के बदले प्रति लाभार्थी परिवार डी.बी.टी. के तहत २५० रुपये प्रतिमाह के भुगतान के लिए 392.00 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गई है**।**


सत्र के अंतिम दिन छह विधेयक पारित

चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा सत्र में बुधवार को अंतिम दिन छह विधेयक पारित किए, जिनमें हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, २०२१; हरियाणा अनुसूचित सडक्र तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, २०२१: हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, २०२१; पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०२१; हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०२१ और हरियाणा विनियोग (संख्या ४) विधेयक, 2021 शामिल हैं। आबकारी और अन्य दो बिलों को लेकर विपक्ष की ओर से किरण चौधरी, गीता भुक्कल, आफताब अहम, वरुण मुलाना ने कुछ आपत्तियां कीं। इस पर डिप्टी सीएम और स्पीकर ने जवाब दिए।

हरियाणा आबकारी अधिनियम में संशोधन : शराब टेका लेने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष हुई

हरियाणा आबकारी अधिनियम,1914 की धारा 27 में प्रावधान है कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण, थोक या खुदरा बिक्री के लिए पद्रा राज्य सरकार द्वारा २५ वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। धारा २९ किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता या ऐसे विक्रेता के नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को पच्चीस वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती है। हरियाणा आबकारी अधिनियम,1914 की धारा 27, 29, 30 और 62 में उपबंधित पच्चीस वर्ष की न्यूनतम आयू सीमा को घटाकर इक्कीस वर्ष करने के लिए हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।

माननीयों को अपनी चिंता, कार खरीदने और घर के लिए मिलने वाले ऋण की राशि बढाने की मांग



विधायकों ने क्षेत्र और प्रदेश के मुख्य मुद्धों पर चर्चा करने के साथ हीं खुद के लिए भी सीएम से कुछ मांग रख दी है। माननीयों ने पेंशन, भत्तों, कार और घर के लिए मिलने वाले ऋण की राशि में बढोतरी करने की मांग रखी है। सत्र के दौरान विधायकों ने मंत्रियों के लिए खरीढी जाने वाली लग्जरी गाडियों का विरोध किया लेकिन खढ़ के लिए कार चालक

और निजी सचिव की सुविधा देने का मामला उठाया है। विधायकों ने मांगों को लेकर मख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहा कि विधायकों को ज्याबाँ सुविधा देने के क्रम में कई कारगर कदम उँठाए जा रहे हैं। गुप्ता ने विधायकों को सरकार की तरफ से स्टेनोग्राफर देने की घोषणा की थी। कांग्रेस विधायक भारत भषण बतरा ने सदन में कहा कि अभी तक उन्हें कोई स्टेनोग्राफर नहीं मिला है। निजी सचिव के लिए सरकार से जो 15 हजार रुपये मासिक मिलते हैं, वह राशि भी कम है। बतरा ने कहा कि विधायकों को विधानसभा की कमेटी में हिस्सा लेने के लिए महज दो हजार मिलते हैं। यह राशि कम है। उन्होंने विधायकों को वाहन भत्ते के रूप में 18 प्रति किलोमीटर के

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुव्वकिल के द्वारा निम्न कृषि भूमि का तबादलानामा प्रस्तावित है :-

SW/BSO/534

मनिक अनिल पुत्र ईश्वर सिंह पुत्र रतीराम, निवासी एवं बिस्वेदार गांव बादली, तहसील बादली, जिला झज्जर (हरियाणा) में अराजी बरूवे इन्द्राज जमाबन्दी वर्ष 2018—19, के अनुसार अराजी खेवट न0 771/705मिन, खाता न0 795, मु0 न0 335, किला न0 17/2 (3-8), 18(8-0), 19(7-8), 22(7-19), 23(8-0), मु0 न0 342, किला न0 2(8-0), 3(8-0), 4 / 1(1-16), 7 / 2(5-12), 8(8-0), 9(8-0), 12 / 1(4-11), किते 12, तादादी रकबा 78 कनाल 14 मरले का 5 / 28 भाग बकदर 14 कनाल 1.07 मरला (1.7566875 एकड) वाक रकबा मौजा बादली, तहसील बादली, जिला झज्जर का मालिक व काबिज है, जिसका तबादला प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुव्यकिल के साथ किया जा रहा है तथा प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुव्यकिल को मु0 न0 342, किला न0 8 मिन दक्षिण(4-15), 9 मिन दक्षिण(4-15), 12/1(4-11) किते 3, तादादी रकबा 14 कनाल 1 मरले (1.75625 एकड़) पर कब्जा दिया

मनकि सुनीता पत्नी धर्मेन्द्र पुत्र सत्यनारायण, निवासी एवं बिस्वेदार गांव बादली, तहसील बादली, जिला झज्जर (हरियाणा) में अराजी बरूवे इन्द्राज जमाबन्दी वर्ष 2018–19, के अनसार अराजी खेवट न0 60 / 56मिन. खाता न0 61, म0 न0 229. किला न0 1 / 2(3-16) 2/1(4-4), किते 2, तादादी रकबा 8 कनाल 0 मरला का 2/5 भाग बकदर 3 कनाल 4 मरले (0.4 एकड़) वाका रकबा मौजा बादली, तहसील बादली, जिला झज्जर की मालिक व काबिज है, जिसका तबादला प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुव्यकिल के साथ किया जा रहा है तथा प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुव्वकिल को मु० न० 229, किला न० 2/1 मिन पूर्व (3-4), किता 1 तादादी रकबा 3 कनाल 4 मरले (0.4 एकड) पर कब्जा दिया जा रहा है।

हमकि (1) हरकिशन उर्फ हरी किशन पुत्र रिजकराम पुत्र शोभा, निवासी मकान न0 12-ए. गली न0 7, ओम विहार, नजदीक नन्हे पार्क, डी.के. मोहन गार्डन, पश्चिमी दिल्ली दिल्ली-110059, (2) विरेन्द्र सिंह उर्फ विरेन्द्र सिंह यादव पुत्र रिजकराम पुत्र शोगा, निवासी पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110077, (3) सरबती उर्फ सरबती देवी पुत्री रिजकराम पुत्र शोभा निवासी एवं बिस्तेदार गांव लोहट तहसील बादली जिला सज्जर हाल आबाद सरवती पत्नी धर्मपाल, निवासी गांव जीवरा, जिला रेवाडी, हरियाणा-123035 (4) सावित्री उर्फ सावित्री देवी यादव विधवा व (5) विपिन उर्फ विपिन यादव पुत्र औमप्रकाश पुत्र रिजकराम, निवासीगण मकान न0 100, गांव काजीपुर, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली—110073, (6) सन्जू उर्फ सन्जू यादव पुत्री औमप्रकाश पुत्र रिजकराम, निवासी एवं बिस्वेदार गांव लोहट, तहसील बादली, जिला डांज्जर हाल आबाद सन्जू यादव पत्नी नारायण सिंह यादव, निवासी तरूण एनक्लेव, पीतम पुरा, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली—110034 (?) संगीता पुत्री औमप्रकाश पुत्र रिजकराम, निवासी एवं बिस्वेदार गांव लोहट, तहसील बादली, जिला झज्जर हाल आबाद संगीता पत्नी अनिल कुमार, निवासी मकान न0 105, बागडोला, सैक्टर-8, द्वारका, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110077, एवं उपरोक्त सभी बिस्वेदारान गांव लोहट, तहसील बादली, जिला झज्जर (हरियाणा) में अराजी बरूवे इन्द्राज जमाबन्दी वर्ष 2018-19, के अनुसार अराजी खेवट न0 110मिन / 81. खाता न0 123मिन, खसरा न0 61 / 1(14-3) किता 1. तादादी रकबा 14 कनाल 3 मरले का 12 / 281 भाग बकदर 0 कनाल 12.08 मरले व खेवट न0 142 / 109 खाता न0 180, मु0 न0 21, किला न0 21(7-11), 22(7-11), 23(7-11), किते 3, तादादी रकबा 22 कनाल 13 मरले व खाता न0 181, मु0 न0 13, किला न0 10 मिन (6-7), मु0 न0 21, किला न0 19(8-0), किते 2, तादादी रकबा 14 कनाल 7 मरले व खाता न0 182, मू0 न0 12, किला न0 5/2(1-5), 6(7-19), 21/3(3-7), मु0न0 13, किला न0 1/1(4-7) 10मिन (1-0), किते 5, तादादी रकबा 17 कनाल 18 मरले व खाता न0 183, मू0 न0 21 किला न0 20(8-0) किता 1 तादादी रकबा 8 कनाल 0 मरला जपरोक्त खेवट के सभी खाते का कुल तादादी रकबा 62 कनाल 18 मरले का 4 / 135 भाग, (जिसमें सरबती उर्फ सरबती _ – हरकिशन उर्फ हरी किशन – विरेन्द्र सिंह उर्फ विरेन्द्र सिंह यादव – विपिन उर्फ विपिन यादव हर चार समभाग) बकदर 1 कनाल 17.27 मरले व खेवट न0 159 / 129, खाता न0 200, मु0 न0 21, किला न0 4(7-11), 5 मिन (7-11), 12 मिन शुमाल (4-0), 13(8-0), किते 4. तादादी रकबा 27 कनाल 2 मरले व खाता न0 201, म0 न0 21, किला न0 8(8-0) किता 1, तादादी रकबा 8 कनाल 0 मरला व खाता न0 202, मु0 न0 21, किला न0 11(8-0) किता 1, तादादी रकबा 8 कनाल 0 मरला व खाता न0 203, मू० न0 21, किला न0 12 मिन जनूब (4-0), किता 1, तादादी रकबा 4 कनाल 0 मरला व खाता न0 204, नु0 न0 21, किला न0 18 मिन गरब (4–0), किता 1, तादादी रकबा 4 कनाल 0 मरला व खाता न0 205, मु0 न0 21, किला न0 18 मिन शरक (4—0). किता 1, तादादी रकबा 4 कनाल 0 मरला व खाता न0 p6, मु0 न0 21, किला न0 9(8–0), किता 1, तादादी रकबा 8 कनाल 0 मरला व खाता न0 मुंठ नुठ 21, किला नुठ 2(7-11), किता 1, तादादी रकबा 7 कनाल 11 मरले, उपरोक्त के सभी खातों का कुल तादादी रकबा 70 कनाल 13 मरले का 4 / 135 भाग (जिसमें उर्फ सरबती देवी — हरकिशन उर्फ हरी किशन – विरेन्द्र सिंह उर्फ विरेन्द्र सिंह यादव उर्फ विपिन यादव हर चार समभाग) बकदर 2 कनाल 1.86 मरला, उपरोक्त खेवटों से तादादी रकबा 4 कनाल 11.21 मरले व खेवट न0 111 / 82, खाता न0 124, मु0 न0 26,

सिंह उर्फ विरेन्द्र सिंह यादव हर तीन समभाग) व खेवट न0 128 / 98, खाता न0 165, मु0 न0 22, किला न0 23(3-4), 24(8-0), किते 2, तादादी रकबा 11 कनाल 4 मरले का 4/135 भाग, बकदर 0 कनाल 6.63 मरले (जिसमें सरबती उर्फ सरबती देवी – हरकिशन उर्फ हरी किशन – विरेन्द्र सिंह उर्फ विरेन्द्र सिंह यादव हर तीन समभाग 3/135 भाग, सावित्री उर्फ सावित्री देवी यादव – विपिन उर्फ विपिन यादव – सन्ज उर्फ सन्ज यादव – संगीता हर चार समभाग 1/135 भाग), उपरोक्त सभी खेवटों से तादादी रकबा 4 कनाल 18.96 मरले (0.6185 एकड़) वाका रकबा मौजा लोहट, तहसील बादली, जिला झज्जर के मालिकान व काबिजान हैं, जिसका तबादला प्रथम पक्षगण द्वारा मेरे मुख्वकिल के साथ किया जा रहा है तथा प्रथम पक्षगण द्वारा मेरे मुव्वकिल को मु0 न0 21, किला न0 12 मिन पश्चिम(3—19), मु0 न्0 22, किला न्0 23 मिन उत्तर(0-7), खसरा न0 61/1 मिन मध्य(0-11.96), मु0 न0 26, किला न0 27 मिन पूर्व(0-1), किते 4, तादादी रकबा 4 कनाल 18.96 मरले (0.6185 एकड़) पर कब्जा दिया जा रहा है। अतः यदि कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त भूमि में मुखलफाना हक, स्वामित्व, कब्जा या अन्य

किला न0 27(0-15). किता 1. तादादी रकबा 0 कनाल 15 मरले का 3/40 भाग, बकदर 0

कनाल 1.12 मरला (जिसमें सरबती उर्फ सरबती देवी – हरकिशन उर्फ हरी किशन – विरेन्द्र

कोई सम्बन्ध रखता है या किसी को इस तबादलानामा पर कोई ऐतराज है तो वह व्यक्ति उपरोक्त भिम में अपने हक, दावे सम्बन्धी जरूरी दस्तावेजों व साक्ष्य सहित इस विज्ञाप्ति के प्रकाशित होने के 14 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरित से सम्पर्क करे या भेजे, अन्यथा यह माना का अन्य कोई सम्बन्ध नही रखता और मेरा मुव्यकिल एक्त अराजी के तबादले से सम्बन्धित अग्रिम सभी कार्यवाही करेगा।

दिनांक : 22.12.2021

विनय कुमार सैनी द्वितीय तल, म0 नं0-285, सैक्टर-14, गुरूग्राम — 122001 Mobile: 9810203697 E-mail: svkqqn@yahoo.com

विधानसमा सत्र के दौरान उठा मामला

ओमिक्रोन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार: विज

योगेंद्र शर्मा 🕪 चंडीगढ़

विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम व चौथे दिन सदन में विपक्ष के विरोध के बीच छह विधेयक पारित किए गए। इसके अलावा दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा कराई गई। इस दौरान पहले मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल को लेकर विपक्षी कांग्रेसी विधायकों ने किसानों के सामने आ रहीं दिक्कतो की चर्चा की। जिस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विस्तार से जवाब दिया लेकिन शोरगुल व हंगामा जारी रहा। दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कोविड के नए वैरिएंट को लेकर था। जिस पर विपक्ष ने घेरेबंदी की, तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोविड की दो लहरों के दौरान

विधानसभा क्षेत्र के मामले उटे

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे ढिन बधवार को प्रश्नकाल से शुरुआत हुई। जिसमें विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों की मांगे रखीं इसके समाप्त होने के बाद में शुन्यकाल चलाया गया। इसकी संमाप्ति के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों की ओर से मेरी फसल मेरा ब्योरा की अनुमति दी। कांग्रेस की ओऱ से वरुण मुलाना, अमित सिहाग अन्य को बोलने का मौका दिया. जिस पर सभी ने पोर्टल के कारण किसानों के सामने आ रही ढिक्कतों की बात सदन में रखी। इनेलो के अभय चौटाला ने भी किसानों को परेशान करने के आरोप लगाए. साथ ही कहा कि अभी भी किसानों के साझा उठाए कदमों के बारे में विस्तार से खाते चल रहे हैं, जिससे परेशानी हो रही है।

सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दियाः हुड्डा



जानकारी दी।

चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हड़ा ने कहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में सरकार ने विपक्ष के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। विपक्ष के सवालों से सरकार भागती हुई नजर आई। कांग्रेस की तरफ से भर्ती घोटाले, बेरोजगारी, खाद की किल्लत, एमएसपी की गारंटी, फसल रजिस्ट्रेशन, जलभराव, सड़कों की

जर्जर हालत, महंगाई, नंबरदारों की नियुक्ति, ओबीसी आरक्षण से छेडछाड. कोरोना को लेकर तैयारी और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी समेत अलग-अलग मुद्धों पर 17 स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए थे। लेकिन इनमें से सिर्फ 5 को ही मंजूर किया गया। इसके अलावा, सरकार से प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े दर्जनों सवाल भी पूछे गए।

प्राचार्य

f	नेविदा र	सूचना 🔻
मही .	बोर्ड, निगम प्राधि की वेतसाहर	नोडल अधिकारी / सम्पर्क विवस्ता र्व-मेल

क्र.	वोर्ड/निगम/प्राधि.	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि	राज्ञि/ईएमडी	बोर्ड, निगम प्राधि	नोडल अधिकारी /
सं.	का नाम		वंद इसे की निश्व (समय)	(लगभग) क.मॅ	की वेवसाहर	सम्पर्क विवरण/ई-मेल
1	एमआईसीएडी डिबीजन, भिवानी	न्नादींक रंग्यूटी आणित मेहला (एक्प्एम) के नहत संयोग मेह पर आदरते हैं औन-माने प्रीक्ष तक लो केस पहुष नाहम अक्टरना इसेन हिंग्या के निमानी तिले में शिमन किर्फुम्प्रटेशिन्सासनों के मोहले किल्ला आदरनेए के करने हैं मोहल साह हंटीडिंग माहले होगेल्य (आईरमआई) जीजनाओं का एक या की सुनिर्देश्व स्वाप्ता के से एक्सा (औन जाम महत्त्र होगेला मिटन के 3 वर्ष के निमान्त स्वाप्ता करने हमें स्वाप्ता हैं जानने, आपूर्ती स्थापना परिकास, प्रचालन की संचालन के अप के स्वाप्ता स्वाप्ता स्थापना	बंद होने की तिथ 03.01.2922	5201.25 লাভ	https://etenders.hry.nic.in	8222856403 xerbhiwanicac@gmail.con

संवाद विज्ञा. सं.-13/2022/60/6378/1/88/6 दि. 22.12.21

संवाद विज्ञा. सं.-13/2022/40/6387/1/88/6 दि. 22.12.21

क. सं.	बोर्ड/निगम/ प्राधिः का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि वंद होने की तिथि (सन्व)	राशि/ईएमडी (लगभग) रु.में	वोर्ड/निगम/ग्राधि, की वेबसाइट	नोइल अधिकारी / सम्पर्क विवरण/ई-मेल
1	रचवीपीएनएल	1. 220 केवी सब स्टेशन सेक्टर-32 पंचकुला और एक सीकेटी 66 केवी सब स्टेशन सेक्टर-1, पंचकुला से 65 केवी डी.सी लाइन सिंहर एक सीकेटी 2. 220 केवी राव स्टेशन मदनपुर से एक सीकेटी और 66 केवी सब स्टेशन सेकटर-20 पंचकुला से एक सीकेटी दोनों 66 केवी सब स्टेशन आई.एरिया प्रेएमं-11 पंचकुला पर 66 केवी डी.सी लाइन सिंहर जंकशन सुधार हेतु 0.4 एसक्यू "एसीआर कंडक्टर सिंहत समेत नये एलएय-05 (एनएयएआई डिपॉमिट कार्य) के ऊपर आई.एरिया पीएए-1 से तीकस्पुर और सेक्टर-12ए से 2 लेन प्लांड आवर समेत ने पंचपिता प्रीएन का सबें और स्टेकिंग।	17.12.2021 24.12.2021	1.37 लाख	www.hvpn.org.in	0172-2583789 pro@hvpn.org.in
2	र्चवोपीएनएल	132 केवी सब स्टेशन बहु झोलरी में शीचालव का पुनरोद्धार, पाइप फिटिंग, पेंट, ग्लास, इत और दरवाजे एवं खिड़की, रोफ्टिक टैंक की मरम्मत और रखरखाव।	20.12.2021 05.01.2022	8.88 लाख	www.hvpr.org.in	0172-2583789 pro@hypn.org.in
3	एचवोपीएनएल	132 केवी सब स्टेशन बरवाला से 33 केवी सब स्टेशन दौलतपुर फिडिंग हेतु 33 केवी लाइन वे की रचना (प्लानिंग कोड 3वी 3561*)	20.12.2021	3.78 लाख	www.hvpn.org.in	0172-2583769 gro@hvpn.org.in

डायल ११२ पर सहयोग मं

चंडीगढ़। गृह मंत्री अनिल विज ने विस सत्र में सभी विधायकों से आग्रह करते हुए कहा कि सभी विधायक डायल 112 पर कॉल करके चेक करें अगर कोई शिकायत होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। विज ने कहा कि पुलिस जितनी जल्दी पहंच जाती है अपराधी उतनी जल्दी पकड लिया जाता है। विज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

> 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' में नई पहल हरियाणा में शहरी विधानसभा क्षेत्र का विधायक 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' के तहत विकास के लिए अपने नजढीकी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव का चयन कर सकता है। डिप्टी सीएम ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि इससे तेर

विकास होगा।

हरियाणा सरकार की स्वामित्व स्कीम के अन्तर्गत खण्ड गोहाना की ग्राम

कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, गोहाना

पंचायत नगर, वजीरपुरा, गढी सरायनामदार खां, ऑवली, बिलबिलान का आबादी देह का दूसरा नक्शा सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा तैयार किया जा चुका हैं। यह नक्शा ग्राम पंचायत की ओर से समस्त ग्रामवासियों के निरीक्षण हेत् उपलब्ध है। इसको निरीक्षण हेतु दिनांक 20.12.2021 से 19.01.2022 की प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर रखा जाएगा। इन नक्शों पर यदि किसी को कोई ऐतराज हो तो उपरोक्त ग्राम पंचायतों अनुसार दिए गए समय में समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, गोहाना तथा संबंधित ग्राम सचिव नगर, वजीरपुरा, गढी सरायनामदार खां, ऑवली, बिलबिलान के पास लिखित रूप में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत गढी सरायनामदार खां दिनांक 20.01.2022, ग्राम पंचायत वजीरपुरा में दिनांक 21.01.2022, ग्राम पंचायत नगर में दिनांक 24.01.2022, ग्राम पंचायत बिलबिलान में दिनांक 21.01.2022 तथा ग्राम पंचायत ऑवली में दिनांक 20.01.2022 को दावे आपत्तियों का निपटान करके ग्राम सभा की बैठक में अंतिम रुप दे दिया जाएगा।

हस्ता/- खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, गोहाना

निविदा सूचना उप मुख्य अभियंता / निर्माण / उत्तर रेलवे, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली द्वारा कार्य के लिए निर्धारित प्रोफार्मा पर एकल पैकेट खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

	कार्य का नाम और स्थान	रोहतक-महम-हांसी नई लाइन के संबंध में दोभ में नए क्रॉसिंग स्टेशन तक एलसी नंबर 10 से दोभ स्टेशन तक पहुचने के मार्ग और अन्य संबद्ध कार्यों का प्रावधान।
2	कार्य की अनुमानित लागत	रु. 21738493.09 (रुपये दो करोड़ सन्नह लाख अड़तीस हजार चार सौ तिरानवे और नौ पैसे मात्र)
3	धरोहर राशि	०/- (शुन्य)
4	कार्य निष्पादन की अवधि	06 (छह) माह
- 1	ई-निविदा जमा करने व खुलने का समय,	निविदा दिनांक 10.01.2022 तक आईआरईपीएस वेब साइट और www.ireps.gov.in पर 11:30 बजे तक अपलोड की ज

6 विस्तृत निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज

स्थान : यमुनानगर

दिनांक: 21.12.2021

तारीख व स्थान

सकती है। निविदाकर्ता ई-निविदा में भाग ले सकते हैं, जो 10.01.2022 को 11:30 बजे खोली जाएगी विस्तृत ई-निविदा दस्तावेज www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त निविदाओं के दस्तावेज आरईपीएस वेबसाइट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 27.12.2021 से 10.01.2022 तक उपलब्ध होगें। उपरोक्त निविदाओं के संबंध में अन्य सभी नियम और शर्ते निविदा दस्तावेज में दी गयी हैं। विस्तृत निविदा सूचना को

उपरोक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखा जा सकता है। संख्या 464-एसीएस-सी-दोभ-रोड-टीकेजे दिनांक 20.12.2021

इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड CIN: L23423HR1933PLC00009 पंजीकत कार्यालय : रादौर रोड. यमनानगर-135001, हरियाणा

गहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

Ph.: 01732-661061 / 661158 Email Id: roynr@isgec.com, Website: www.isgec.com

शेयरधारक को सूवना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (अकाउंटिंग, ऑडिट, हस्तांतरण और रिफंड)

मों 2016 के नियम 6 और उसके संशोधन, इसके पश्चात् ''आईईपीएफ नियमों'' के रूप में संदर्भित के तहत एतद् द्वारा सुचना दी जाती है। i) आईईपीएफ नियमों के नियम 6 के सम्बन्ध में, सभी शेयरधारकों जिनके सम्बन्ध में पिछले निरंतर 7 वर्षों में लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं करवाया गया है, को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाना आवश्यक है।

सम्बन्धित शेयरधारक जिसने पिछले निरंतर ७ वर्षों में लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं करवाय है। उसे इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत नोटिस द्वारा सूचित कर दिया गया है।

यह सुचना आईईपीएफ नियमों के नियम 6 (3) (ए) के अनुपालन में है।

अतः सभी शेयर जिनके लाभांश के सम्बन्ध में दावे / भुगतान पिछले निरंतर ७ वर्षों के दौरान नहीं किये गये हैं उन्हें उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार आईईपीएफ डिमेट अकाउंट में हस्तांतरित किया जाना है।

शेयरधारक द्वारा आवश्यक कार्यवाही एवं सूचना हेतु नाम, पता, फोलियो नं., डिमैट अकाउंट नं. और हरतांतरण हेतु चकाया शेयरों की संख्या निहित विवरण में अथवा वेबसाइट

www.isgec.com पर उपलब्ध करवाया गया है। शेयरधारक जिसने पिछले निसंतर 7 वर्षों में अपने लाभांशों का दावा नहीं किया है वह रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स मै. अलंकित असाइनमेंट्स लि., अलंकित हाउस, 4ई/2, इंडिवालान एक्सटेंब्रेन, नई दिल्ली-110055 या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 20 मार्च 2022 को या उससे पूर्व दावे को वैथ बनाने हेतु और अतिरिक्त विवरण हेतु लिख सकते हैं। यदि वैथ दावा नहीं किया गया तो सम्बन्धित शेयरों को 31 मार्च 2022 तक आईईपीएफ डिमेट अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जैसा कि आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किया गया हो।

कोई व्यक्ति जिसके शेयर और बिना दावे किये लाभांश फंड को हस्तांतरित किये जाने हैं. उसे शेवरों और फंड से बिना दावे किये लाभांश हेतु ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और निर्धारित अनुसार ऐसे दस्तावेज जमा करवाने पर शेयरों का दावा करना होगा।

(एस.के. खोराना)

कृते इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड

कार्यकारी निदेशक एवं कम्पनी सचिव